

Date: 23.01.2025

The Secretary Listing Department BSE Limited PJ Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001 Script Code: 532696	The Secretary Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400051 Script Code: EDUCOMP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sub: Copies Of Newspaper Advertisement for Standalone Financial Results for The Quarter Ended on September 30, 2024.


Dear Sir / Madam,

The company has published the unaudited Financial Results for the quarter ended on September 30, 2024. Please find enclosed herewith copies of the Newspaper Advertisements published by the Company in the newspapers i.e. Business Standard (English Language) and Business Standard ((Hindi Regional Language) on January 23, 2025.

The above may please be treated in compliance of Regulation 47 and Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with Part A of Schedule III of the said Regulations.

This is for your information and records.

Thanking You,
Yours Truly,
For Educomp Solutions Limited



Mahender Khandelwal
Caretaker Resolution Professional in the matter of Educomp Solutions Limited
Email: [mkipeducomp@bdo.in]
IBBI Registration No.: [IBBI/IPA-001/IP-P00033/2016-17/ 10086]

Note: As informed earlier also vide various communications, had ordered the commencement of CIRP in respect of the Company under the provisions of Code. Thereafter, in accordance with Section 17 of the Code, the powers of the Board stood suspended and Dr. Sanjeev Aggarwal was appointed as interim resolution professional of the Company. The IRP carried out his duties from May 30, 2017 till Mr. Mahender Khandelwal was appointed as Resolution Professional ("RP") vide the order of NCLT dated September 12, 2017 and took over the management of the affairs of the Company. On 9th October, 2023 the resolution plan is approved by the NCLT which is yet to be implemented. Thereafter, on November 23, 2023 the NCLT has ordered that the RP would act as caretaker qua the CD and in such capacity, he would discharge all those functions as are required to be discharged by an IP as RP.

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद

विज्ञापन
सर्वकारिय प्रकृति विकास नामा है कि अधिकारी की प्रति
विज्ञापन प्रकृति विकास नामा है कि अधिकारी की प्रति
विज्ञापन प्रकृति विकास नामा है कि अधिकारी की प्रति

पंजाब एण्ड सिंद बैंक Punjab & Sind Bank

पंजाब एण्ड सिंद बैंक
पंजाब एण्ड सिंद बैंक
पंजाब एण्ड सिंद बैंक
पंजाब एण्ड सिंद बैंक
पंजाब एण्ड सिंद बैंक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

भारत सरकार का उद्यम
भारत सरकार का उद्यम
भारत सरकार का उद्यम
भारत सरकार का उद्यम
भारत सरकार का उद्यम

Table with 4 columns: No., Name of the person, Amount, and Remarks. Contains financial data and names.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Table with 4 columns: No., Name of the person, Amount, and Remarks. Contains financial data and names.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Table with 4 columns: No., Name of the person, Amount, and Remarks. Contains financial data and names.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Table with 4 columns: No., Name of the person, Amount, and Remarks. Contains financial data and names.

Educomp सॉल्यूशंस लिमिटेड
Educomp सॉल्यूशंस लिमिटेड
Educomp सॉल्यूशंस लिमिटेड
Educomp सॉल्यूशंस लिमिटेड
Educomp सॉल्यूशंस लिमिटेड

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

BRIGADE

BRIGADE PROPERTIES PRIVATE LIMITED
 Corporate Identity Number (CIN): U70200KA2007PTC042824
 Regd. Office: 29th Floor, World Trade Center, Brigade Gateway Campus
 26/1, Dr. Rajkumar Road, Malleswaram-Rajajinagar, Bengaluru 560 055. Ph: +91-80-4137 9200
 Email: investors@brigadegroup.com, www.brigadecosmpolis.com

Statement of Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2024

Sl. No.	Particulars	Quarter ended	Corresponding	Previous year
		December 31, 2024	Quarter ended December 31, 2023	ended March 31, 2024
		[Unaudited]	[Unaudited]	[Audited]
1	Total Income from Operations	6,351	6,055	28,273
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	3	(2,150)	(4,824)
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	3	(2,150)	(4,824)
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	2	(1,608)	(5,096)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax))	2	(1,608)	(5,096)
6	Paid-up equity share capital (Face value per share - ₹10)	3,827	3,827	3,827
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	(31,432)	(31,079)	(30,881)
8	Securities Premium Account	-	-	-
9	Net worth	(12,384)	(12,012)	(11,814)
10	Paid-up debt capital / Outstanding debt	30,312	50,332	44,141
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	2,109	2,109	2,109
12	Debt Equity Ratio	(10.56)	(11.74)	(12.50)
13	Earnings Per Share (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations)			
	a) Basic			
	Class A equity shares	-	-	-
	Class B equity shares	0.01	(4.13)	(13.08)
	Class C equity shares	0.01	(4.30)	(13.62)
	b) Diluted			
	Class A equity shares	-	-	-
	Class B equity shares	0.01	(4.13)	(13.08)
	Class C equity shares	0.01	(4.30)	(13.62)
14	Capital Redemption Reserve (CRR)	-	-	-
15	Debenture Redemption Reserve (DRR)	1,319	1,319	1,319
16	Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	0.46	0.11	0.35
17	Interest Service Coverage Ratio (ISCR)	1.00	0.41	0.67

Notes to the financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2024

- The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchange(s) under regulation 52 of the Listing Regulations. The full format of the quarterly financial results is available on the websites of the BSE Limited and on the Company's website www.brigadecosmpolis.com.
- For the other line items referred in regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the BSE Limited and can be accessed on the Company's website www.brigadecosmpolis.com.
- Brigade Properties Private Limited (the Company or "BPP") had issued 490 A Series Unsecured Non-Convertible Debentures (NCD) of ₹10,00,000 each on March 20, 2015, which were listed on BSE Limited ("BSE") on March 30, 2015. As the above mentioned investment is unsecured, the disclosure of asset coverage is not required.
- The financial results of Brigade Properties Private Limited (the Company) for the quarter and nine months ended December 31, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on January 21, 2025, and have been subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company.
- During the quarter and nine months ended December 31, 2024, the Company incurred losses and has a net current liability position as of that date. The Company has substantially sold all its residential units and is leasing out commercial spaces in Tech Gardens Zone B and C. Additionally, some retail and commercial spaces in Zone A are available to be leased and subsequently sold, which will contribute to increased revenue. The Company has an unsecured Lease Rental Discounting (LRD) limit from bank, secured against rental income from leasing out spaces in Zones B and C to meet its current liabilities as they fall due. Furthermore, the Company can also obtain continued financial support from its investors to continue to run its business operations. Based on the projected cashflows including the factors mentioned above, the Company expects that the carrying value of its assets including investment property, inventories including Transfer of Development Rights (TDR), deferred tax assets and receivables as at the period end is fully recoverable.

Place: Bengaluru, India
 Date: January 21, 2025

For and on behalf of the Board of Directors of Brigade Properties Private Limited
 Director

Continued from previous page

INVESTORS PLEASE NOTE

The details of the allotment made will be hosted on the website of the Registrar to the Offer, Bigshare Services Private Limited at www.bigshareonline.com. All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Offer quoting full name of the First/sole Bidder, Bid cum Application Form number, Bidder ID, Client ID, PAN, date of submission of Bid cum Application Form, address of the Bidder, number of Equity Shares applied for, the name and address of the Designated Intermediary where the Bid cum Application Form was submitted by the Bidder and a copy of the Acknowledgment Slip received from the Designated Intermediary at the address given below:

Bigshare Services Private Limited
 CIN: U99999MH1994PTC0707534
 Office No S6-2, 6th Floor, Phoenix Business Park, Next to Abura Centre, Mahakal Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093
 Tel. No.: +91 22 6283 8200;
 Email: ipo@bigshareonline.com
 Contact Person: Mr. Jitendra Jitendra
 SEBI Registration No.: INR000001335

On behalf of Board of Directors
 Stallion India Fluorochemicals Limited
 Sd/-
 Sarita Khamwani
 Company Secretary and Compliance Officer

Place: Mumbai
 Date: January 22, 2025

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF STALLION INDIA FLUORO-CHEMICALS LIMITED.

STALLION INDIA FLUORO-CHEMICALS LIMITED has filed the Prospectus with RoC and the Stock Exchanges on January 21, 2025. The Prospectus is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, the website of the Company at www.stallionfluorochemicals.com and on the websites of the Book Running Lead Managers ("BRLMs"), i.e. Sarita Capital Advisors Private Limited, www.sarita.in. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and details relating to such risk, see "Risk Factors" beginning on page 28 of the Prospectus. This announcement is not an offer of securities for sale in the United States or elsewhere. This announcement has been prepared for publication in India only and is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States. The Equity Shares offered in the Offer have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States, or to, or for the account or benefit of, U.S. Persons (as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. The Company has not registered and does not intend to register under the U.S. Investment Company Act of 1940 ("Investment Company Act"). Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold (i) to persons in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons, in each case that are both "qualified institutional buyers" as defined in Rule 144A under the Securities Act and "qualified purchasers" as defined under the Investment Company Act in transactions exempt from or not subject to the registration requirements of the Securities Act and in reliance on Section 3(c)(7) of the Investment Company Act and (ii) outside the United States to non-U.S. persons in offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities Act and the applicable laws of the jurisdictions where such offers and sales are made. There will be no public offering in the United States.

Educomp
EDUCOMP SOLUTIONS LIMITED
 CIN: L74999DL1994PLC061353
 Regd. Office: L-314 (Ground and First floor), Gali No.-7, Mahalpur, New Delhi-110037
 E-mail: investorservices@educomp.com, Website: www.educomp.com

STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended	
		30/09/2024	30/09/2024	30/09/2023	30/09/2024	30/09/2023	31/03/2024
		[Unaudited]	[Unaudited]	[Unaudited]	[Unaudited]	[Unaudited]	[Audited]
1.	Total Income from operations (net)	109.22	128.59	129.23	237.81	267.76	413.94
2.	Net Profit/(Loss) for the period before tax, exceptional items and extraordinary item	(648.28)	(160.63)	(1,355.58)	(828.91)	(1,480.88)	(3,380.99)
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax but after exceptional items and extraordinary item	(648.28)	(160.63)	(1,355.58)	(828.91)	(1,480.88)	(3,380.99)
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax, exceptional items and extraordinary item	(648.28)	(160.63)	(1,355.58)	(828.91)	(1,480.88)	(3,380.99)
5.	Total Comprehensive Income	(648.28)	(160.63)	(1,355.58)	(828.91)	(1,480.88)	(3,380.99)
6.	Paid up Equity share capital (Face Value Rs.2/- each)	2,449.34	2,449.34	2,449.34	2,449.34	2,449.34	2,449.34
7.	Reserve excluding revaluation reserves	(3,14,606.69)	(3,13,958.42)	(3,11,878.10)	(3,14,606.69)	(3,11,878.10)	(3,13,777.78)
8.	Securities Premium Account	1,02,403.24	1,02,403.24	1,02,403.24	1,02,403.24	1,02,403.24	1,02,403.24
9.	Net worth	(3,06,204.60)	(3,04,184.28)	(3,06,912.88)	(3,04,184.28)	(3,06,204.60)	(3,06,204.60)
10.	Paid up Debt Capital/Outstanding debt	2,66,343.44	2,65,837.59	2,65,161.19	2,66,343.44	2,65,161.19	2,65,665.70
11.	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	-	-	-
12.	Debt Equity Ratio	(0.87)	(0.87)	(0.87)	(0.87)	(0.87)	(0.87)
13.	(Loss)/ Earning Per Share (before and after extraordinary items) (not annualized)						
	(a) Basic	(0.53)	(0.15)	(1.11)	(0.68)	(1.21)	(2.76)
	(b) Diluted	(0.53)	(0.15)	(1.11)	(0.68)	(1.21)	(2.76)
14.	Capital Redemption Reserve	-	-	-	-	-	-
15.	Debenture Redemption Reserve	-	-	-	-	-	-
16.	Debt Service Coverage Ratio	(2.79)	0.03	(8.30)	(1.38)	(4.08)	(4.76)
17.	Interest Service Coverage Ratio	(2.92)	(0.09)	(8.35)	(1.51)	(4.10)	(4.81)

Note: The above results are extracts of the detailed format of Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2024 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and half year financial results is available on the Stock Exchange Website namely, BSE Limited (www.bseindia.com) National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the Company's Website (www.educomp.com).

For Educamp Solutions Limited
 Sd/-
 MAHENDER KHANDELWAL
 TAKEN ON RECORD
 CARETAKER RESOLUTION PROFESSIONAL OF EDUCOMP SOLUTIONS LIMITED

Place: New Delhi
 Date: 21/01/2025
 REGISTRATION NUMBER: IBB/INFRA-0618/P-0003/2016-17/10688

ADITYA BIRLA
 FASHIONS & RETAIL

ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL LIMITED
 CIN: L18101MH2007PLC229301
 Regd. Office: Primal Agri Corporate Park, Building 4A, 4th and 5th Floor, Unit No. 401, 403, 501, 502, L.B.S. Road, Kuria, Mumbai - 400 070.
 Tel: +91-86529 05000; Fax: +91-86529 05400; Website: www.abfl.com E-mail: secretariat@abfl.adityabirla.com

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting ("EGM") of the Members of the Company will be held through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Thursday, February 13, 2025, at 11:00 a.m. IST, to transact the business set out in the Notice of the EGM.

The EGM will be convened in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder ("the Act"), provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and other applicable provisions of the Act, Members participating through the VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

The Notice of the EGM has been sent on January 22, 2025, through electronic mode only, to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company / MUFEG Intime India Private Limited ("RTA") / Depositories as on January 17, 2025. The requirement of sending proxy forms has been dispensed with vide relevant circulars.

The e-copy of the Notice of the EGM thereon are also available on:

- the website of the Company at www.abfl.com
- relevant section of the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and
- the website of the RTA at <https://intstavoie.in/india/time>

In terms of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), as amended, and Regulation 44 of the Listing Regulations & Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide its Members with the facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the EGM by electronic means.

The Company has engaged the services of the RTA for providing the e-voting facility (both, before the EGM from any place other than the venue of the EGM ("remote e-voting") and during the EGM ("e-voting at EGM")). In terms of SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020, e-voting process will also be enabled for all individual demat account holders, by way of a single login credential, through their demat accounts/websites of Depository Participants / Depositories.

Relevant documents referred to in the accompanying Notice will be available electronically for inspection by Members, without payment of any fees, from the date of circulation of this Notice up to the date of EGM i.e. Thursday, February 13, 2025. Members seeking to inspect such documents can send an email to secretariat@abfl.adityabirla.com.

Mr. Dilip Bharadwaj (holding Membership No. FCS 7956), Partner of M/s. Dilip Bharadwaj & Associates, Company Secretaries, has been appointed by the Company as the scrutinizer for conducting the entire e-voting process (i.e. remote e-voting and e-voting at EGM) in a fair and transparent manner.

The Members are requested to note the e-voting instructions as follows:

- A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Thursday, February 6, 2025, i.e. the cut-off date shall be entitled to vote on the Resolutions set forth in the Notice.
- Any person who acquires shares of the Company after dispatch of this Notice and holds shares as of the cut-off date i.e. Thursday, February 6, 2025, may follow the procedure for remote e-voting as enumerated in detail in the Notice.
- The remote e-voting period will commence on Monday, February 10, 2025, at 9.00 a.m. and end on Wednesday, February 12, 2025, at 5.00 p.m. The remote e-voting shall be disabled for voting thereafter by the RTA.
- During this period, Members of the Company as on cut-off date i.e. Thursday, February 6, 2025, holding shares in physical or in dematerialized form, may cast their votes through remote e-voting. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the same cannot be modified subsequently by such Member.
- In addition, the facility for e-voting shall be made available during the EGM and Members attending the EGM who have not cast their votes through remote e-voting shall be eligible to vote at the EGM.
- Members who have already cast their votes through remote e-voting facility may participate in the EGM, however shall not be allowed to vote at the EGM.

Helpdesk:

- Helpdesk for Individual Members holding securities in demat mode**
 In case members holding securities in demat mode have any technical issues related to login through Depositories i.e. NSDL / CDSL, they may contact the respective helpdesk given below:

Login Type	Helpdesk Details
Individual Members holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at 022-4886 7000 and 022-2499 7000
Individual Members holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33

- Helpdesk for Individual Members Shareholders holding securities in physical mode / Institutional shareholders**
 In case members holding securities in physical mode / Institutional shareholders have any queries regarding e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions and InstaVot e-voting manual available at <https://intstavoie.in/india/time> under help section or send an email to evoting@abfl.adityabirla.com or contact on: Tel: 022-4918 6000.

Members who would like to express their views / ask questions during the EGM may register themselves as a speaker by sending their request in advance at least 7 (seven) days prior to the date of EGM i.e. Thursday, February 6, 2025, mentioning their name, demat account number / folio number and mobile number at secretariat@abfl.adityabirla.com. Only those Members who have registered themselves as a speaker will be allowed to express their views / ask questions during the EGM.

Members are requested to carefully read the Notes set out in the Notice of the EGM and in particular the instructions for joining the EGM, manner of casting vote through remote e-voting or e-voting at the EGM.

For Aditya Birla Fashion and Retail Limited
 Sd/-
 Anil Malik
 President & Company Secretary

Date: January 22, 2025
 Place: Mumbai

An Aditya Birla Group Company

Companies, Insight Out

Companies, Monday to Saturday

To book your copy, email reaches to 57578 or email order@bsm.in

Business Standard